



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5177]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940

No. 5177]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6456(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 (हन्मकोंडा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेनुए डिविशनल अफसर, वारंगल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 (हन्मकोंडा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: वारंगल अर्बन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: एलकातुरती					
गांव का नाम: पेंचीकलपेटा					
1	33	निजी	ड्राई	2,465.0000000(वर्ग मीटर)	0.2465000
2	34	निजी	ड्राई	60.0000000(वर्ग मीटर)	0.0060000
3	35	निजी	ड्राई	16,100.0000000(वर्ग मीटर)	1.6100000
4	37	निजी	ड्राई	18,215.0000000(वर्ग मीटर)	1.8215000
5	38	निजी	ड्राई	990.0000000(वर्ग मीटर)	0.0990000
6	39	निजी	ड्राई	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
7	48	निजी	ड्राई	9,840.0000000(वर्ग मीटर)	0.9840000
8	49	निजी	ड्राई	1,930.0000000(वर्ग मीटर)	0.1930000
9	50	निजी	ड्राई	9,828.0000000(वर्ग मीटर)	0.9828000
10	86	निजी	ड्राई	5,880.0000000(वर्ग मीटर)	0.5880000
11	Road	सरकारी		2,415.0000000(वर्ग मीटर)	0.2415000
तालुक का नाम: हसनपरती					
गांव का नाम: येलापुर					
1	123	निजी	वेट	1,020.0000000(वर्ग मीटर)	0.1020000
2	124	निजी	वेट	4,835.0000000(वर्ग मीटर)	0.4835000
3	125	निजी	वेट	3,710.0000000(वर्ग मीटर)	0.3710000
4	126	निजी	वेट	115.0000000(वर्ग मीटर)	0.0115000
5	127	निजी	वेट	1,395.0000000(वर्ग मीटर)	0.1395000
6	16	निजी	ड्राई	8,575.0000000(वर्ग मीटर)	0.8575000

7	181	निजी	ड्राई	5,010.0000000(वर्ग मीटर)	0.5010000
8	182	निजी	ड्राई	12,250.0000000(वर्ग मीटर)	1.2250000
9	27	निजी	ड्राई	5,436.0000000(वर्ग मीटर)	0.5436000
10	28	निजी	ड्राई	2,345.0000000(वर्ग मीटर)	0.2345000
11	30	निजी	वेट	6,990.0000000(वर्ग मीटर)	0.6990000
12	31	निजी	वेट	6,810.0000000(वर्ग मीटर)	0.6810000
13	32	निजी	वेट	4,195.0000000(वर्ग मीटर)	0.4195000
14	35	निजी	वेट	1,635.0000000(वर्ग मीटर)	0.1635000
15	36	निजी	वेट	695.0000000(वर्ग मीटर)	0.0695000
16	360	निजी	ड्राई	790.0000000(वर्ग मीटर)	0.0790000
17	362	निजी	ड्राई	1,300.0000000(वर्ग मीटर)	0.1300000
18	363	निजी	ड्राई	55.0000000(वर्ग मीटर)	0.0055000
19	37	निजी	वेट	2,385.0000000(वर्ग मीटर)	0.2385000
20	398	निजी	वेट	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
21	400	निजी	वेट	530.0000000(वर्ग मीटर)	0.0530000
22	401	निजी	वेट	225.0000000(वर्ग मीटर)	0.0225000
23	402	निजी	वेट	675.0000000(वर्ग मीटर)	0.0675000
24	403	निजी	वेट	390.0000000(वर्ग मीटर)	0.0390000
25	408	निजी	वेट	665.0000000(वर्ग मीटर)	0.0665000
26	409	निजी	वेट	295.0000000(वर्ग मीटर)	0.0295000
27	410	निजी	वेट	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
28	48	निजी	वेट	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
29	49	निजी	वेट	4,355.0000000(वर्ग मीटर)	0.4355000
30	50	निजी	वेट	4,045.0000000(वर्ग मीटर)	0.4045000
31	51	निजी	वेट	5,410.0000000(वर्ग मीटर)	0.5410000
32	52	निजी	वेट	3,655.0000000(वर्ग मीटर)	0.3655000
33	53	निजी	वेट	2,400.0000000(वर्ग मीटर)	0.2400000
34	535	निजी	वेट	3,475.0000000(वर्ग मीटर)	0.3475000

35	536	निजी	बेट	5,740.0000000(वर्ग मीटर)	0.5740000
36	54	निजी	बेट	930.0000000(वर्ग मीटर)	0.0930000
37	55	निजी	बेट	3,990.0000000(वर्ग मीटर)	0.3990000
38	69	निजी	बेट	2,235.0000000(वर्ग मीटर)	0.2235000
39	70	निजी	बेट	1,055.0000000(वर्ग मीटर)	0.1055000
40	71	निजी	बेट	670.0000000(वर्ग मीटर)	0.0670000
41	72	निजी	ड्राई	7,520.0000000(वर्ग मीटर)	0.7520000
42	79	निजी	ड्राई	3,205.0000000(वर्ग मीटर)	0.3205000
43	80	निजी	ड्राई	5,790.0000000(वर्ग मीटर)	0.5790000
44	81	निजी	ड्राई	7,040.0000000(वर्ग मीटर)	0.7040000
45	82	निजी	ड्राई	10,975.0000000(वर्ग मीटर)	1.0975000
46	83	निजी	ड्राई	8,240.0000000(वर्ग मीटर)	0.8240000
47	84	निजी	ड्राई	2,425.0000000(वर्ग मीटर)	0.2425000
48	Road	सरकारी	ड्राई	40,125.0000000(वर्ग मीटर)	4.0125000
49	Road	सरकारी	ड्राई	2,120.0000000(वर्ग मीटर)	0.2120000
50	Road	सरकारी	ड्राई	3,265.0000000(वर्ग मीटर)	0.3265000
गांव का नाम: हसनपरती					
1	24	निजी	बेट	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
2	25	निजी	बेट	8,595.0000000(वर्ग मीटर)	0.8595000
3	26	निजी	बेट	6,285.0000000(वर्ग मीटर)	0.6285000
4	27	निजी	बेट	625.0000000(वर्ग मीटर)	0.0625000
5	324	निजी	ड्राई	285.0000000(वर्ग मीटर)	0.0285000
6	325	निजी	ड्राई	4,550.0000000(वर्ग मीटर)	0.4550000
7	326	निजी	ड्राई	10,125.0000000(वर्ग मीटर)	1.0125000
8	327	निजी	ड्राई	2,190.0000000(वर्ग मीटर)	0.2190000
9	329	निजी	ड्राई	5,555.0000000(वर्ग मीटर)	0.5555000
10	340	निजी	ड्राई	16,100.0000000(वर्ग मीटर)	1.6100000
11	341	निजी	बेट	15,535.0000000(वर्ग मीटर)	1.5535000

12	343	निजी	वेट	4,650.0000000(वर्ग मीटर)	0.4650000
13	37	निजी	ड्राई	1,730.0000000(वर्ग मीटर)	0.1730000
14	39	निजी	ड्राई	13,735.0000000(वर्ग मीटर)	1.3735000
15	40	निजी	ड्राई	1,945.0000000(वर्ग मीटर)	0.1945000
16	41	निजी	ड्राई	8,010.0000000(वर्ग मीटर)	0.8010000
17	42	निजी	ड्राई	1,040.0000000(वर्ग मीटर)	0.1040000
18	427	निजी	वेट	5,120.0000000(वर्ग मीटर)	0.5120000
19	43	निजी	ड्राई	150.0000000(वर्ग मीटर)	0.0150000
20	435	निजी	वेट	190.0000000(वर्ग मीटर)	0.0190000
21	436	निजी	वेट	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
22	437	सरकारी	ड्राई	6,185.0000000(वर्ग मीटर)	0.6185000
23	438	निजी	ड्राई	9,935.0000000(वर्ग मीटर)	0.9935000
24	439	निजी	ड्राई	3,805.0000000(वर्ग मीटर)	0.3805000
25	44	निजी	ड्राई	10,800.0000000(वर्ग मीटर)	1.0800000
26	440	निजी	ड्राई	625.0000000(वर्ग मीटर)	0.0625000
27	464	निजी	वेट	90.0000000(वर्ग मीटर)	0.0090000
28	585	निजी	ड्राई	12,825.0000000(वर्ग मीटर)	1.2825000
29	586	निजी	ड्राई	14,385.0000000(वर्ग मीटर)	1.4385000
30	589	सरकारी	shikam	55.0000000(वर्ग मीटर)	0.0055000
31	63	निजी	ड्राई	6,255.0000000(वर्ग मीटर)	0.6255000
32	64	निजी	ड्राई	3,420.0000000(वर्ग मीटर)	0.3420000
33	65	निजी	ड्राई	385.0000000(वर्ग मीटर)	0.0385000
34	756	निजी	वेट	510.0000000(वर्ग मीटर)	0.0510000
35	757	निजी	वेट	60.0000000(वर्ग मीटर)	0.0060000
36	758	निजी	वेट	720.0000000(वर्ग मीटर)	0.0720000
37	759	निजी	ड्राई	3,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.3100000
38	760	निजी	वेट	4,115.0000000(वर्ग मीटर)	0.4115000
39	794	निजी	वेट	3,505.0000000(वर्ग मीटर)	0.3505000

40	795	निजी	वेट	1,100.0000000(वर्ग मीटर)	0.1100000
41	798	निजी	वेट	1,790.0000000(वर्ग मीटर)	0.1790000
42	799	निजी	वेट	390.0000000(वर्ग मीटर)	0.0390000
43	800	निजी	वेट	6,235.0000000(वर्ग मीटर)	0.6235000
44	801	निजी	वेट	6,330.0000000(वर्ग मीटर)	0.6330000
45	802	निजी	वेट	4,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.4440000
46	Road	सरकारी	ड्राई	1,115.0000000(वर्ग मीटर)	0.1115000
47	Road	सरकारी	ड्राई	1,595.0000000(वर्ग मीटर)	0.1595000
कुल				481,469.0000	48.1469

[फा. सं. NHAI/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 6456(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH563 in the stretch of land from Km 95.3 to Km116.667 (Hanamkonda) in the district of WARANGAL URBAN in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Warangal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH563 in the stretch of land from NH563 (Hanamkonda) in the district of WARANGAL URBAN in the State of TELANGANA

State: TELANGANA		District: WARANGAL URBAN			
Sl.No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Elkathurthi					
Village: Penchikalapeta					
1	33	Private	Dry	2,465.0000000(Square Meter)	0.2465000

2	34	Private	dry	60.0000000(Square Meter)	0.0060000
3	35	Private	Dry	16,100.0000000(Square Meter)	1.6100000
4	37	Private	dry	18,215.0000000(Square Meter)	1.8215000
5	38	Private	dry	990.0000000(Square Meter)	0.0990000
6	39	Private	dry	120.0000000(Square Meter)	0.0120000
7	48	Private	dry	9,840.0000000(Square Meter)	0.9840000
8	49	Private	Dry	1,930.0000000(Square Meter)	0.1930000
9	50	Private	Dry	9,828.0000000(Square Meter)	0.9828000
10	86	Private	Dry	5,880.0000000(Square Meter)	0.5880000
11	Road	Government	dry	2,415.0000000(Square Meter)	0.2415000
Taluk: Hasanparthy					
Village: Yellapur					
1	123	Private	wet	1,020.0000000(Square Meter)	0.1020000
2	124	Private	wet	4,835.0000000(Square Meter)	0.4835000
3	125	Private	wet	3,710.0000000(Square Meter)	0.3710000
4	126	Private	wet	115.0000000(Square Meter)	0.0115000
5	127	Private	wet	1,395.0000000(Square Meter)	0.1395000
6	16	Private	dry	8,575.0000000(Square Meter)	0.8575000
7	181	Private	dry	5,010.0000000(Square Meter)	0.5010000
8	182	Private	dry	12,250.0000000(Square Meter)	1.2250000
9	27	Private	dry	5,436.0000000(Square Meter)	0.5436000
10	28	Private	dry	2,345.0000000(Square Meter)	0.2345000
11	30	Private	wet	6,990.0000000(Square Meter)	0.6990000
12	31	Private	wet	6,810.0000000(Square Meter)	0.6810000
13	32	Private	wet	4,195.0000000(Square Meter)	0.4195000
14	35	Private	wet	1,635.0000000(Square Meter)	0.1635000
15	36	Private	wet	695.0000000(Square Meter)	0.0695000
16	360	Private	DRY	790.0000000(Square Meter)	0.0790000
17	362	Private	dry	1,300.0000000(Square Meter)	0.1300000
18	363	Private	DRY	55.0000000(Square Meter)	0.0055000
19	37	Private	wet	2,385.0000000(Square Meter)	0.2385000
20	398	Private	wet	40.0000000(Square Meter)	0.0040000
21	400	Private	wet	530.0000000(Square Meter)	0.0530000
22	401	Private	wet	225.0000000(Square Meter)	0.0225000
23	402	Private	wet	675.0000000(Square Meter)	0.0675000
24	403	Private	wet	390.0000000(Square Meter)	0.0390000
25	408	Private	wet	665.0000000(Square Meter)	0.0665000
26	409	Private	wet	295.0000000(Square Meter)	0.0295000
27	410	Private	Wet	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
28	48	Private	wet	2,000.0000000(Square Meter)	0.2000000

29	49	Private	wet	4,355.0000000(Square Meter)	0.4355000
30	50	Private	wet	4,045.0000000(Square Meter)	0.4045000
31	51	Private	wet	5,410.0000000(Square Meter)	0.5410000
32	52	Private	wet	3,655.0000000(Square Meter)	0.3655000
33	53	Private	wet	2,400.0000000(Square Meter)	0.2400000
34	535	Private	wet	3,475.0000000(Square Meter)	0.3475000
35	536	Private	wet	5,740.0000000(Square Meter)	0.5740000
36	54	Private	wet	930.0000000(Square Meter)	0.0930000
37	55	Private	wet	3,990.0000000(Square Meter)	0.3990000
38	69	Private	wet	2,235.0000000(Square Meter)	0.2235000
39	70	Private	wet	1,055.0000000(Square Meter)	0.1055000
40	71	Private	wet	670.0000000(Square Meter)	0.0670000
41	72	Private	dry	7,520.0000000(Square Meter)	0.7520000
42	79	Private	dry	3,205.0000000(Square Meter)	0.3205000
43	80	Private	dry	5,790.0000000(Square Meter)	0.5790000
44	81	Private	dry	7,040.0000000(Square Meter)	0.7040000
45	82	Private	DRY	10,975.0000000(Square Meter)	1.0975000
46	83	Private	DRY	8,240.0000000(Square Meter)	0.8240000
47	84	Private	DRY	2,425.0000000(Square Meter)	0.2425000
48	Road	Government	DRY	40,125.0000000(Square Meter)	4.0125000
49	Road	Government	Dry	2,120.0000000(Square Meter)	0.2120000
50	Road	Government	dry	3,265.0000000(Square Meter)	0.3265000
Village: Hasanparthy					
1	24	Private	wet	120.0000000(Square Meter)	0.0120000
2	25	Private	wet	8,595.0000000(Square Meter)	0.8595000
3	26	Private	wet	6,285.0000000(Square Meter)	0.6285000
4	27	Private	wet	625.0000000(Square Meter)	0.0625000
5	324	Private	dry	285.0000000(Square Meter)	0.0285000
6	325	Private	dry	4,550.0000000(Square Meter)	0.4550000
7	326	Private	dry	10,125.0000000(Square Meter)	1.0125000
8	327	Private	dry	2,190.0000000(Square Meter)	0.2190000
9	329	Private	dry	5,555.0000000(Square Meter)	0.5555000
10	340	Private	dry	16,100.0000000(Square Meter)	1.6100000
11	341	Private	wet	15,535.0000000(Square Meter)	1.5535000
12	343	Private	wet	4,650.0000000(Square Meter)	0.4650000
13	37	Private	dry	1,730.0000000(Square Meter)	0.1730000
14	39	Private	dry	13,735.0000000(Square Meter)	1.3735000
15	40	Private	dry	1,945.0000000(Square Meter)	0.1945000
16	41	Private	dry	8,010.0000000(Square Meter)	0.8010000
17	42	Private	dry	1,040.0000000(Square Meter)	0.1040000
18	427	Private	wet	5,120.0000000(Square Meter)	0.5120000

19	43	Private	dry	150.0000000(Square Meter)	0.0150000
20	435	Private	wet	190.0000000(Square Meter)	0.0190000
21	436	Private	wet	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
22	437	Government	dry	6,185.0000000(Square Meter)	0.6185000
23	438	Private	dry	9,935.0000000(Square Meter)	0.9935000
24	439	Private	dry	3,805.0000000(Square Meter)	0.3805000
25	44	Private	dry	10,800.0000000(Square Meter)	1.0800000
26	440	Private	dry	625.0000000(Square Meter)	0.0625000
27	464	Private	wet	90.0000000(Square Meter)	0.0090000
28	585	Private	dry	12,825.0000000(Square Meter)	1.2825000
29	586	Private	dry	14,385.0000000(Square Meter)	1.4385000
30	589	Government	shikam	55.0000000(Square Meter)	0.0055000
31	63	Private	dry	6,255.0000000(Square Meter)	0.6255000
32	64	Private	dry	3,420.0000000(Square Meter)	0.3420000
33	65	Private	dry	385.0000000(Square Meter)	0.0385000
34	756	Private	wet	510.0000000(Square Meter)	0.0510000
35	757	Private	wet	60.0000000(Square Meter)	0.0060000
36	758	Private	wet	720.0000000(Square Meter)	0.0720000
37	759	Private	dry	3,100.0000000(Square Meter)	0.3100000
38	760	Private	wet	4,115.0000000(Square Meter)	0.4115000
39	794	Private	wet	3,505.0000000(Square Meter)	0.3505000
40	795	Private	wet	1,100.0000000(Square Meter)	0.1100000
41	798	Private	wet	1,790.0000000(Square Meter)	0.1790000
42	799	Private	wet	390.0000000(Square Meter)	0.0390000
43	800	Private	wet	6,235.0000000(Square Meter)	0.6235000
44	801	Private	wet	6,330.0000000(Square Meter)	0.6330000
45	802	Private	wet	4,440.0000000(Square Meter)	0.4440000
46	Road	Government	dry	1,115.0000000(Square Meter)	0.1115000
47	Road	Government	dry	1,595.0000000(Square Meter)	0.1595000
Total				481,469.0000	48.1469

[F. No. NHA/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.